

सर्वाधिकार प्रकाशिकाधीन हैं ।

आं३म्

भारत-उद्धार

अर्थात्

बाल भक्त प्रह्लाद

सचित्र ड्रामा

लेखक—

ज़ख्मी पञ्जाब, पद्मिनी, ज़ख्मी हिन्दू आदि कतिपय नाटकों के

रचयिता

लाला किशन चन्द “जेबा”

प्रकाशक—

ज्योतिः प्रसाद गुप्त

नेशनल बुकडिपो, नयी सड़क देहली ।

दूसरीबार १५००]

[मूल्य ॥॥]

मुद्रक—नारायण प्रसाद 'बेताब' बेताब प्रिंटिंग वर्क्स चाह रहट देहली ।